

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मार्च 10, 1966/फाल्गुन 19, 1887
 No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 1966/PHALGUNA 19, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
ORDER

New Delhi, the 5th March 1966

S.O. 770.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 2732 dated the 20th September of 1963, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. Title of the film No.	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1 Indian New Reviews 294M No. 908		Films Division, Government of India, Bombay.		Film dealing with news and current events.

[No. F.24/1/66-FPApp.1074.]
 B. GHOSE, Under Secy.

(533)

